

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2024—आश्विन 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1-5-5-0006-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची-एक

(1) उच्च शिक्षा विभाग

अनुसूची-“दो”

दिव्यांगजनों के लिये विन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा विभाग

पद की श्रेणी	पद/संवर्ण का नाम	सौधी मती के कुल स्वीकृत पद	सौधी मती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	नियुक्ताजनों के लिए विन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु विन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी										रिक्त पदों की भूति कब तक जावेगी					
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1-5%) विन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1-5%) विन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)		कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)			
1	2	3	3(b)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
तृतीय	शौघालयक वर्ग-3	11	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
	सहायक वर्ग-3	62	62	0	4	1	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	1	4	3	2	
	स्टेनो टायपिस्ट	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	75	75	0	5	1	0	1	1	1	0	2	2	1	1	0	1	5	3	3	
चतुर्थ	कार्यालय सहायक	68	41	27	4	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	4	1	3	
	योग	68	41	27	4	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	4	1	3	
	महायोग	143	116	27	9	2	0	2	2	1	1	3	3	1	2	0	2	9	4	6	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.